

गणेशपुर से आबकारी विभाग ने बरामद किए 1.50 लाख से अधिक के नकली शराब



Publish Date: Mon, 11 Oct 2021 06:00 AM (IST) Author: **Jagran**

नगर के तेलनपाली इलाके के गणेशपुर से शनिवार को आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में नकली विदेशी शराब ढक्कन व लेबल बरामद किए। इस मामले में शिवकुमार सहारा व सरोज कुमार सहारा नामक दो भाइयों को भी गिरफ्तार किया गया।

संसू, ब्रजराजनगर : नगर के तेलनपाली इलाके के गणेशपुर से शनिवार को आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में नकली विदेशी शराब, ढक्कन व लेबल बरामद किए। इस मामले में शिवकुमार सहारा व सरोज कुमार सहारा नामक दो भाइयों को भी गिरफ्तार किया गया। आबकारी विभाग के उत्तरांचल उपायुक्त डमरूधर खंडा को सूचना मिली थी कि ब्रजराजनगर में विदेशी नकली शराब का कारोबार चल रहा है। उन्होंने संबलपुर आबकारी विभाग के प्रभारी निरीक्षक स्मृति कांत राउत को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। शनिवार को संबलपुर से आबकारी विभाग की 10 सदस्यीय टीम ब्रजराजनगर पहुंची और आरोपित के ठिकाने पर छापेमारी की। इस क्रम में आरोपित के घर से 199 बोतल नकली विदेशी शराब समेत 2277 नकली ढक्कन, 2912 नकली स्टिकर व 206 शराब की खाली बोतलें जब्त की गईं। छापेमारी के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने 121.350 लीटर शराब जब्त किए, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये आंकी गई है। इनमें अरुणाचल प्रदेश की 750 एमएल की किम्स गॉल व्हिस्की भी शामिल है जिसकी बिक्री ओडिशा में निषेध है। बताया जा रहा है कि ये लोग अरुणाचल प्रदेश से सस्ती शराब लाकर उसे ब्रांडेड कंपनियों की बोतल में भरकर संबंधित कंपनी का ढक्कन व लेबल लगाकर बिक्री करते थे। पिता व उसके दोनों पुत्र यह कारोबार करते थे। हालांकि छापेमारी के दौरान आरोपित पिता घटनास्थल से फरार हो गया। छापेमारी टीम में सहायक निरीक्षक कार्तिक मल्लिक, मधुसूदन सेठ, गिरिजा महंती, श्रीधर पिल्लई, उपेंद्र भोई, बसंती साहू व अशोक खड़िया इत्यादि शामिल थे। बताया गया कि राउरकेला के जलदा इलाके का अनिल साहू इन्हें अरुणाचल प्रदेश से शराब पहुंचाने की व्यवस्था करता था। फिलहाल इस मामले की छानबीन जारी है।

Source: <https://www.jagran.com/odisha/jharsuguda-excise-department-recovered-spurious-liquor-worth-more-than-150-lakh-from-ganeshpur-22102456.html>